



Central Organisation For Railway Electrification

1, Nawab Yusuf Road, Civil Lines, Allahabad 211001

www.core.indianrailways.gov.in

पत्रांक-कोर/पीआर/010/भाग-7

दिनांक -26.02.2019

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन में काव्यांजलि का आयोजन ।

महाप्रबंधक/कोर श्री रतन लाल की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2019 को केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद में विभिन्न कवियों की रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम काव्यांजलि का आयोजन किया गया । कार्यक्रम से पूर्व पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन रखा गया तथा उनकी शहादत पर आधारित वीडियो क्लिप प्रदर्शित की गई ।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर श्री विनोद कुमार वर्मा ने महाप्रबंधक सहित सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया । कार्यक्रम में श्री कौशल कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार, श्री प्रदीप तिवारी, कार्यपालक सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर, सुश्री जया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, श्रीमती रंजना, कार्यालय अधीक्षक एवं श्री प्रवीण कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने सूर, कबीर, तुलसी, मीरा एवं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की संगीतमय प्रस्तुति की ।

महाप्रबंधक महोदय ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि कविता किसी चीज की गहराई का एहसास कराती है । संवाद और संचार के माध्यम से एक-एक कड़ी जोड़कर पूरे भारत को एक करने में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है । उन्होंने राजभाषा विभाग को ऐसे आयोजन के लिए बधाई दी और आशाव्यक्त की कि इससे राजभाषा का प्रयोग-प्रसार बढ़ेगा ।

कार्यक्रम में मुख्यालय के विभागाध्यक्ष सर्वश्री सत्य प्रकाश, प्रमुख मुख्य इंजीनियर एवं प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, आर एस मीणा, मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, श्री कमलेश शुक्ला, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, श्री राजीव त्रेहान, मुख्य सामग्री प्रबंधक वरिष्ठ सहित भारी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे । कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीमती सुनीला यादव ने किया ।

(अनूप मिश्र)

वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी

कोर/इलाहाबाद